

सं. 25: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2024-25	2025	2026					
		मार्च 28	फर. 20	फर. 27	मार्च 6	मार्च 13	मार्च 20	मार्च 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	26554	26554	17961	16216	16797	17497	18816	23433
1.2 प्राथमिक व्यापारी	25258	25258	11678	12437	12343	16148	17784	12710
1.3 राज्य सरकारें	40315	40315	68427	62941	51441	42614	22923	15779
1.4 अन्य	115688	115688	89661	97647	104160	106655	110701	102957
2. 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	44887	44887	36090	38079	38212	36929	41875	40605
2.2 प्राथमिक व्यापारी	62218	62218	82592	86843	91476	98712	97098	98051
2.3 राज्य सरकारें	11078	11078	5264	4964	2964	2964	6874	6874
2.4 अन्य	104994	104994	93218	92978	94212	94259	96927	91245
3. 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	72304	72304	56059	54829	56148	57479	57394	58499
3.2 प्राथमिक व्यापारी	86939	86939	103825	107032	107421	104268	106626	105760
3.3 राज्य सरकारें	37389	37389	42623	42395	42279	41214	41021	40756
3.4 अन्य	162757	162757	152416	151439	150731	153553	152280	145041
4. 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	188072	273670	270170	264716	217170	301218	329942	307440
4.4 अन्य	572	572	1192	853	1253	696	364	491
कुल खज़ाना बिल	790381	790381	759814	767799	768183	772292	770318	741709
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर) #								

#: 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल, 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे बिक्री योग्य नहीं हैं। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।